

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक -10-07-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

सुप्रभात बच्चों आज सी, सी, ए, वर्ग के अन्तर्गत कुछ प्रेरणादायक और मजेदार कहानी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा, आप लोग भी ऐसी कहानियों के बारे में अध्ययन कीजिए और कहानी से मिली सीख को लिखकर हमें भेजने का प्रयास करेंगे।

लकड़ियों का गट्ठर

तीन पड़ोसी अपनी फ़सलों को लेकर बहुत परेशान थे,तीनों खेतों में ऐसी फ़सलें थी जो मुरझा रही थी इ कीटों द्वारा संक्रमित भी थी। हर दिन वे अपनी फसलों को बचाने के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाते थे,पहलेवाले ने खेत में एक बिजूका रखा,दूसरे ने कीटनाशकों का उपयोग किया,और तीसरे ने अपने खेत पर एक बाड़ लगाया,परंतु सब निरर्थक साबित हुआ। एक दिन गाँव के प्रमुख ने तीनों किसानों को बुलाया,उन्होंने तीनों को एक-एक लकड़ी दी और उन्हें वह तोड़ने को कहा। तीनों किसान उन्हें आसानी से तोड़ सकें,अब उन्होंने उन्हें तीन लकड़ियों का गट्ठर दिया और उन्हें वह तोड़ने को कहा। इस बार,किसानों को लकड़ियाँ तोड़ने के लिए अधिक ताकत लगानी पड़ी। गाँव के प्रमुख ने कहा,‘अकेले काम करने से ज़्यादा ताकत साथ काम करने से मिलती है।’किसानों ने अपनी योजनाओं की सारी चीज़ें इक्कठा की और आखिरकार अपने खेतों के कीटों से छुटकारा पाया।

कहानी से मिली सीख

एकता में बहुत बल होता है।

एक गिलास दूध

एक दिन हरि स्कूल के बाद पैदल चल कर घर जा रहा था,उसे अचानक भूख के कारण कमज़ोरी महसूस हुई और उसे पता था कि उसकी माँ ने उसके लिए घर पर खाना तैयार नहीं रखा होगा,वह हताश हो गया और घर-घर जाकर खाना माँगने लगा। आखिरकार,एक लड़की ने उसे एक बड़ा

गिलास भरकर दूध दिया। जब हरि ने उसके बदले में उसे कुछ पैसे देने चाहे तब उस लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर जाने के लिए कहा । कई वर्षों बाद, वह लड़की, जो अब बहुत बड़ी हो गई थी, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और ऐसा कोई नहीं था जो उसका इलाज कर सकता था। अंत में, वह शहर के सबसे बड़े अस्पताल में गई जहाँ शहर के सर्वोत्तम डॉक्टर थे। डॉक्टर ने उसका इलाज करने में महीनों गुज़ार दिए जब तक कि वह ठीक नहीं हो गई। वह खुश थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि वह बिल का भुगतान नहीं कर पाएगी। जब अस्पताल वालों ने उसे बिल सौंपा और उसने वह खोला तो उस पर लिखा था, 'एक गिलास दूध द्वारा पूरे बिल का भुगतान किया जा चुका है।'

कहानी से मिली सीख

अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता है, उसका इनाम हमें कभी ना कभी मिलता ही है।